

B.A. F.Y. CBCS Pattern Semester-II
BA12B-3 - Hindi Literature

P. Pages : 3

Time : Three Hours



GUG/S/24/10035

Max. Marks : 80

सुचनाएँ :- 1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. निम्नलिखित प्रश्नों में से **किसी एक** प्रश्न का उत्तर लिखिए। 20

अ) 'रश्मिरथी' खण्डकाव्य के आधार पर कर्ण की विशेषताएँ लिखिए।

अथवा

ब) रश्मिरथी खण्ड काव्य का कथानक लिखिए।

2. निम्नलिखित समूहों में से **किसी एक ही समूह** के सभी पद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। 20

समूह - अ

- 1) कटवा दूँ उसके लिए गला,
चाहिए मुझे क्या और भला,
मुझको न कहीं कुछ पाना है,
केवल ऋण मात्र चुकाना है।
- 2) पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो, मेरे भुजबल से,
रवि समान दीपित ललाट से और कवच-कुण्डल से
पढ़ो उसे जो झलक रहा है, मुझमें तेज-प्रकाश
मेरे रोम-रोम में अंकित है मेरा इतिहास
- 3) मैं उनका आदर्श, जिन्हे कुल का गौरव ताडेगा
नीच वंश जन्मा कहकर जिनको जग धिक्कारेगा।
मैं उनका आदर्श कही जो व्यथा न खोल सकेंगे
पूछेगा जग, किन्तु पिता का नाम न बोल सकेंगे।
- 4) दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पाँच ग्राम,
रक्खों अपनी धरती तमाम।
हम वही खुशी से खायेंगे
परिजन पर असि न उठायेंगे।

अथवा
समूह ब

- 5) ऊपर सिर पर कनक-छत्र, भीतर काले-के-काले,
शरमाते हैं नही जगत में जाति पूछनेवाले।
सूत्रपुत्र है मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन?
साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन।
- 6) हित वचन नहीं तुने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना,
तो लो, मैं भी अब जाता हूँ, अन्तिम संकल्प सुनाता हूँ।
याचना नहीं, अब रण होगा
जीवन जय या कि मरण होगा।
- 7) रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हों,
और प्रजाएँ मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों।
रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छुटसके
बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनो को लूट सके
- 8) सोच रहा हूँ क्या उपाय, मैं इसके सथ करूँगा,
इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरेगा?
शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को, निश्चित है बात,
रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात”।

3. निम्नलिखित प्रश्नों में से **किसी तीन** प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

15

- 1) हिन्दी भाषा के उद्भव पर टिप्पण लिखिए।
- 2) 'राजभाषा' किसे कहते हैं?
- 3) देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।
- 4) “संपर्क भाषा” किसे कहते हैं?

4. निम्नलिखित प्रश्नों में से **किसी तीन** प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए।

15

- 1) मैथिलिशरण गुप्त का परिचय लिखिए।
- 2) सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय लिखिए।
- 3) आयोध्यासिंह उपाध्याय के साहित्य की विशेषताएँ लिखिए।
- 4) हरिवंशराय बच्चन का परिचय लिखिए।

5. निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर अति संक्षेप में लिखिए।

10

- 1) कुंती कर्ण से क्या मांगती है?
- 2) राधेय किसे और क्यों कहा गया है?
- 3) मानक भाषा का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
- 4) कवि कुसुमाग्रज का परिचय दीजिए।
- 5) राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं?
